

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22] नई दिल्ली, शनिवार, जून 02—जून 08, 2018 (ज्येष्ठ 12, 1940)

No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 02— JUNE 08, 2018 (JYAISTHA 12, 1940)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 3

[PART I—SECTION 3]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी असांविधिक नियमावलियों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding to the Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued
by the Ministry of Defence]

गृह मंत्रालय

(समन्वय निदेशालय)

(पुलिस बेटार)

नई दिल्ली, 21 मई, 2018

सं. ए-17011/05(एस -205)/2017-प्रशा I.—इस निदेशालय के श्री एस. डी.भारद्वाज, संयुक्त सहायक निदेशक (बी.) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30-04-2018 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

के. सी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (प्रशा.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DIRECTORATE OF COORDINATION)
(POLICE WIRELESS)

New Delhi, the 21st May, 2018

No. A-17011/05 (S-205)/2017-Admn.I.—Shri S.D. Bhardwaj, Joint Assistant Director (Cy) of this Directorate has retired from Government service on attaining the age of superannuation in the afternoon of 30-04-2018.

This issue with the approval of Competent Authority.

K.C. SHARMA
Joint Director (Admn)